



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 3—अक्टूबर 9, 2009 (अश्विन 11, 1931)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3—OCTOBER 9, 2009 (ASVINA 11, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2009

सं. आरएस.42/5/2009/59—कार्मिक—कृषि मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में अपर निजी सचिव के पद से कार्य-मुक्त होने पर श्री बदरुद्दीन, उपनिदेशक (पीपीएस) ने 11 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में पुनः कार्यभार संभाल लिया है।

सी बी राय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 2009

सं. ए-43011/04/2009—प्रशा. I:—योजना आयोग की अधिसूचना सं. ए-43011/17/2005—प्रशा. I दिनांक 31.03.2009 और दिनांक 12.05.2009 को बाद में जारी समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रकोष्ठ की अवधि इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय देनदारी नहीं होगी, दिनांक 01.08.2009 से और दो माह के लिए बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया है।

एस केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2009

सं. ए-43014/02/2009—प्रशा. II:—वित्त मंत्रालय, आर्थिक-कार्य विभाग (आईईएस प्रभाग) के दिनांक 04.09.2009 के आदेश सं. 13016/3/2009—आईईएस के तहत भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में नियुक्ति और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर तैनाती के परिणामस्वरूप श्री एस रॉय, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को 10.09.2009 के (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस केशव अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 07 सितम्बर 2009

सं. ए-43011/06/2009—प्रशा. I:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/16/2007—सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अधिकारियों जो योजना आयोग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं/कार्य कर रहे थे को 01.07.2003 से नियमित आधार पर अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल संख्या	अभ्युक्ति
	सर्वश्री		
1.	एन के शर्मा	4281	
2.	पवन कुमार	4305	01.09.2006 (पूर्वाह) से स्वीकृत रूप से सेवा निवृत्त।
3.	एन के रघुनाथन	4372	
4.	एस. केशव अय्यर	4375	
5.	के रामाचन्द्रन	4489	31.05.2008 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त
6.	श्रीमती विमला बजाज	4746	30.11.2008 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त
7.	सुश्री शर्मिष्ठा बोस	4938	
8.	आर सी गुप्ता	5085	30.09.2006 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त
9.	बनारसी राम	5946	

2. कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारियों को वरिष्ठता ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीखों पर ध्यान न देते हुए उसी क्रम में होगी जिस क्रम में उनके नाम रखे गए हैं। उपरोक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल समादेश याचिका (सीडब्ल्यूपी) संख्या 13352/2005 के अंतिम नतीजे के अधीन होगी।

3. 01.07.2003 से अवर सचिव के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति अनुमोदित सेवा के प्रयोजन और सैद्धान्तिक आधार पर अवर सचिव के रूप में उनके वेतन के निर्धारण के लिए होगी। तथापि, अधिकारियों को वास्तविक लाभ सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से ही प्राप्त होंगे।

4. अधिकारी अवर सचिव के पद पर अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से अपने वेतन के पुनः निर्धारण के कारण बकाया राशि के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी एफआर 22 के उपबंधों के अनुसार अपने वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प का लाभ लेने के भी पात्र होंगे। तथापि, वे अधिकारी जिन्हें अपनी चयन सूची वर्ष की पहली जुलाई से पहले तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था और जिन्होंने विभाजित विकल्प का लाभ उठा लिया था, वे विकल्प देने के पात्र नहीं होंगे।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2009

सं. ए-31018/1/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2003 के निम्नलिखित केन्द्रीय सचिवालयी सेवा अधिकारियों को दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम
1	2
1.	श्री गुलशन कुमार, अवर सचिव
2.	श्री राम मोहन, अवर सचिव

1	2
3.	सुश्री किरण वासुदेव, अवर सचिव
4.	श्री एस. मिंजु अवर सचिव
5.	श्री के. के. रॉय, अवर सचिव
ए. के. शुक्ला, निदेशक	

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. ए-32012/5/2008-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी. एस. गुज्जर, अधीक्षक (विधि) को दिनांक 15 जून 2009 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600-39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32012/5/2008-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी.आर. बनर्जी, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत) को दिनांक 11 जून 2009 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600-39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32012/5/2008-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री बीरसिंह माझी, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में आधार पर सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत) को दिनांक 22 जून 2009 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600-39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6,600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 3 सितम्बर 2009

सं. ए-60011/31/2001-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, वर्ष 2001 की ओ.ए. सं. 374 और 375 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मद्रास पीठ) के दिनांक 27.8.2001 के आदेश के अनुसरण में और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, श्री आर. रघुपति (अब संयुक्त सचिव

और विधि सलाहकार) की अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग का ग्रेड-II) के पद पर प्रोन्नति की दिनांक 6.6.1997 से लागू करते हैं। इसके अनुसरण में, श्री आर. रघुपति को अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के वर्ष 1996-97 के पैनल में श्री ए. पी. अग्रवाल के ऊपर दर्शाया जाएगा और इस विभाग की दिनांक 17 जून, 1997 की अधिसूचना सं. ए-32012/5/96-प्रशा. I (वि.का.) को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

वी. रवींद्रन, अवर सचिव

दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. ए-32012/1/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री ए. के. शर्मा, सहायक सरकारी अधिवक्ता को दिनांक 3 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में स्थानापन्न रूप से 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड में 7,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित उप सरकारी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग को ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवींद्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2009

सं. 11025/2/2008-एसआर--श्री पी. वी. पीथाम्बरण ने आयोजन समिति, राष्ट्रमण्डल खेल दिल्ली 2010 के कार्यालय से अपने प्रत्यावर्तन के पश्चात् दिनांक 01.09.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक अपने मूल पद, अधीक्षक परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रवीण कुमारी सिंह, निदेशक (एस आर)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. 14016/11/2008-यूटीएस-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के निरीक्षक (डी-1/846) श्री ज्ञान सिंह मोणा (जन्म की तारीख : 01.07.1957) को 9,300--34,800/- रुपए (ग्रेड पे 4,800/- रुपए) के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया है।

2. दिल्ली पुलिस के निरीक्षक श्री ज्ञान सिंह मोणा की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में की गई नियुक्ति सीडब्ल्यूपी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले के परिणाम के अध्वधीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 07 सितम्बर 2009

सं. 13017/24/2004-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन कर दिया है/निर्देश दिया है कि श्री एम. जी. वी. के. भानु, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम : 85) जो वर्तमान समय में आंध्र-प्रदेश राज्य में अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर हैं, को सितम्बर, 2009 माह के अंत तक उनके मूल संवर्ग अर्थात् असम-मेघालय में वापस भेज दिया जाएगा।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 08 सितम्बर 2009

सं. 13017/27/2009-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार एवं ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार श्री विजेन्द्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 98) की हरियाणा के भा.प्र.से. संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. के भा.प्र.से. संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. 14012/28/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	2000	04.09.2002
2.	श्री जुजावारपू बालाजी	2001	02.09.2003
3.	श्री एम. अंगमुथु	2002	02.09.2004

शौकत अली, अवर सचिव

दिनांक 17 सितम्बर 2009

सं. 23012/04/2007-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त श्री पराग जैन, भा.प्र.से. (एम. एच. : 1996), जो महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के हैं, को अपना नाम

“पराग जैन” से बदल कर “पराग जैन नैनुटीया” करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए उन्हें “श्री पराग जैन नैनुटीया” के नाम से जाना जाएगा।

शौकत अली, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 सितम्बर 2009

सं. ए-19014/05/2005-प्र.सु. (प्रशा.-I)--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति श्रीमती श्यामा कुट्टी को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19014/1/2005-प्र.सु. (प्रशा.-I)--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री अनुराग श्रीवास्तव को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2005-प्र.सु. (प्रशा.-I)--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमती शैलजा एन. जोशी को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. ए-19014/2/2003-प्र.सु. (प्रशा.-I)--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री पी. एस. चौहान को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2009

सं. ए-19014/01/2008-प्र.सु. (प्रशा.-I)--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री जुगलाल सिंह को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वर्मा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2009

सं. 70 : (फा. सं. ए-19012/13/2009-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री नितोश कुमार सिन्हा (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 11.08.2009 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 71 : (फा. सं. ए-19013/17/2009-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री एस. के. सिन्हा (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 24.07.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. 72 : (फा. सं. ए-19013/21/2009-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सुश्री मनीषा सक्सेना (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 04.08.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 73 : (फा. सं. ए-19013/20/2009-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री विकास (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 03.08.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 74 : (फा. सं. ए-19013/22/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, श्री मोहन लाल (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 04.08.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 75 : (फा. सं. ए-19013/15/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, श्री नवराज गोयल (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 31.07.2009 (अपराह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 अगस्त 2009

सं. 76 : (फा. सं. ए-19013/14/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, श्री वेद प्रकाश सिंह (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 20.07.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2009

सं. 77 : (फा. सं. ए-19013/16/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, श्री राजेश वर्मा (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 24.07.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2009

सं. 78 : (फा. सं. ए-19013/23/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, श्री एन. जी. शाहदादपुरी (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क) को दिनांक 13.08.2009 (अपराह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2009

सं. 79 : (फा. सं. ए-19013/7/2009-प्रशा.-I)---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की अधिकारी सुश्री पूर्णिमा शर्मा को, दिनांक 13.05.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग में, तदर्थ आधार पर, उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2009

सं. 8/2009 (फा. सं. ए-32014/02/2008-प्रशा-1क)---कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.7.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सीएस-II और व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 19 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/2/2009-सीएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री सी. जी. के. पिल्लई को वर्ष 2009 के चयन सूची के प्रति दिनांक 13.8.2009 (अपराह्न) से वेतनमान बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपये) + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आनंद उपाध्याय, अवर सचिव

सं. 9/2009 (फा. सं. ए-32014/02/2008-प्रशा-1क)---कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.7.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सीएस-II और व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 19 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/2/2009-सीएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव श्रीमती शोभा भाटिया की वर्ष 2009 के चयन सूची के प्रति दिनांक 11.8.2009 (पूर्वाह्न) से वेतनमान बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपये) + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आनंद उपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2009

सं. 11/2009-ई.एस. (फा. सं. 6/15/007-ईएस)---राष्ट्रपति, श्री प्रसन्ना कुमार मिश्रा को दिनांक 17 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष

अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, [उच्च प्रशासनिक ग्रेड रुपये 67,000/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)—79,000/-] के वेतनमान में अधिकतम 79,000/- रुपये के नियत वेतन पर तथा समकक्ष ग्रेड के ग्रुप 'क' अधिकारी को स्वीकार्य ऐसे भत्तों सहित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य (वित्त एवं लेखाविधि के क्षेत्र से) एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. पी. वर्गोस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. 10 (फस. सं. 4/14/2008-एडी.ई.डी.)--राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्र भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1982) को दिनांक 24.8.2009 (पूर्वाह्न) से 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 18,400—22,400/- रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में विशेष निदेशक प्रवर्तन मुम्बई के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. ए-19011/251/009-स्था.--राष्ट्रपति, इस समय वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत श्री ललित कुमार चन्देल, आईईएस, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड को 5 जून, 2009 से पे-बैंड-4 : 37,400—67,000/- रु. तथा ग्रेड पे 8,700/- रु. में गैर-प्रयोजनमूलक चयन वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) प्रदान करते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 11 सितम्बर 2009

सं. ए-19014/02/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती अलका अरोड़ा, आई. डी. ए. एस. (91) को 13.08.2009 (अपराह्न) से 17.05.2013 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करती हैं।

पी. मल्लिकार्जुनैया, उप निदेशक (प्रशासन-I)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 11 सितम्बर 2009

सं. एसएम/01/17/2008--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में रुपए 37,400--67,000 + 8,700/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में निदेशक के

पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारी के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक, विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रुपए 37,400--67,000 + रुपए 10,000/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में अपर महासर्वेक्षक के नियमित आधार पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री एम. धर्मराज	01.09.2009
	बी. के. मंथन, डेस्क ऑफिसर

सं. एसएम/01/17/2008--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में रुपए 37,400--67,400 + रुपए 8,700/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक, विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रुपए 37,400--67,400 + रुपए 10,000/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में अपर महासर्वेक्षक के अधिसंख्य पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	ब्रिगेडियर एस. चौधरी	01.09.2009
2.	ब्रिगेडियर आर. सी. पाधी	01.09.2009
3.	ब्रिगेडियर गिरिश कुमार	08.09.2009
4.	ब्रिगेडियर आर. पी. स्यान	01.09.2009
5.	ब्रिगेडियर ए. के. सिन्हा	01.09.2009
6.	ब्रिगेडियर एम. मोहन	01.09.2009
7.	ब्रिगेडियर सी. चक्रवर्ती	01.09.2009
8.	ब्रिगेडियर अनिल कुमार	01.09.2009
9.	ब्रिगेडियर आर. एन. ठाकुर	01.09.2009
10.	ब्रिगेडियर बी. डी. शर्मा	01.09.2009

बी. के. मंथन, डेस्क ऑफिसर

नई दिल्ली-110016, दिनांक 14 सितम्बर 2009

सं. ए-19014/02/2005-एस्टे.--राष्ट्रपति, नियमित अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एल. सं. 4772) इस समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न अवर सचिव, श्री ए. के. तनेजा को 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) में नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस.-I दिनांक 25.08.2009 की शर्तों के अनुसार श्री ए. के. तनेजा अवर सचिव ग्रेड को सेलेक्ट सूची 2003 में रखे जाएंगे और उनकी उपर्युक्त नियुक्ति पहली जुलाई, 2003 से की गई मानी जाएगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

सं. ए-19014/01/2005-एस्टे--राष्ट्रपति, नियमित अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एल. सं. 5092) इस समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न अवर सचिव, श्री श्रीनिवास प्रधान को 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) में नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस.-I दिनांक 25.08.2009 की शर्तों के अनुसार श्री श्रीनिवास प्रधान अवर सचिव ग्रेड की सेलेक्ट सूची 2003 में रखे जाएंगे और उनकी उपर्युक्त नियुक्ति पहली जुलाई, 2003 से की गई मानी जाएगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. ए-23011/1/2004-पी-II (.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस.-I, दिनांक 25 अगस्त, 2009 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) हेतु नियुक्ति के लिए वर्ष 2003 की चयन सूची में उनके सम्मिलन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, 01.07.2003 से नियमित आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सी.एस.एल. सं.
1.	श्री उदयन चैटर्जी	सी.एस.एल. सं. 4231
2.	श्री दिनेश सी. शर्मा	सी.एस.एल. सं. 4240
3.	श्री पी. के. अग्रवाल	सी.एस.एल. सं. 4293
4.	श्री जफरुल इस्लाम	सी.एस.एल. सं. 4388
5.	श्री बी. के. श्रीवास्तव	सी.एस.एल. सं. 4548
6.	श्री सी. एम. शर्मा	सी.एस.एल. सं. 4729
7.	श्री बी. बी. बब्बर	सी.एस.एल. सं. 4802
8.	श्री राजकुमार अरोड़ा	सी.एस.एल. सं. 4913
9.	श्री डी. पी. सिंह	सी.एस.एल. सं. 4953
10.	श्री सी. उष्मली	सी.एस.एल. सं. 5028
11.	श्री ओ. पी. जोशी	सी.एस.एल. सं. 5098
12.	श्री मोहन लाल वाधवानी	सी.एस.एल. सं. 5138

2. उन रिक्तियों, जिनके विरुद्ध अपर उल्लिखित अधिकारियों को चयन सूची में शामिल किया गया है, वे 01 जुलाई, 2003 (चयन सूची वर्ष) से 30 जून, 2004 (अगला वर्ष) से संबंधित हैं। लम्बे मुकद्दमेबाजी के कारण इन पैनलों के लिए निर्धारित अवधि में नियमित चयन-सूची नहीं निकाली जा सकी तथा ये पैनल बकाया में चले गए। अतः कल्पित आधार पर अवर सचिव के रूप में अनुमोदित सेवा के उद्देश्य के लिए तथा उनके वेतन निर्धारण हेतु, उपरोक्त चयन-सूची में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति 01.07.2003 से प्रभावी हुई मानी जाए। तथापि, वास्तविक लाभ केवल उस तारीख से उपलब्ध होंगे, जिस तारीख से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

के केन्द्रीय आदेश द्वारा सी.एस.एस. के अवर सचिव के ग्रेड में ये अधिकारी नियुक्त हुए हैं।

3. ये अधिकारी, अवर सचिव के पद के लिए उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से उनके वेतन के पुनर्निर्धारण पर बकाया के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी, एफआर 22 के उपबंधों के अनुसार, उनके वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प का लाभ लेने के भी हकदार होंगे।

4. सी.एस.एस. के ग्रेड-I में, अपर उल्लिखित अधिकारियों की वरिष्ठता का क्रम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सी.एस.-I, दिनांक 25 अगस्त 2009 के साथ संलग्न चयन-सूची में दिए क्रम के अनुसार होगा। नियमित आधार पर अवर-सचिव के ग्रेड की उक्त चयन-सूची में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. ए-12025/32/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) हर्षा शैलेश गायकवाड को दिनांक 15.05.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक परिवीक्षा पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री रोग के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/23/2008-सीएचएस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. सुनील विलासराव गिते को दिनांक 30 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन-स्वास्थ्य उप-संवर्ग में जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/6/2009-सीएचएस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. प्रनव ज्योति भुयान को दिनांक 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन-स्वास्थ्य उप-संवर्ग में जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. ए-19012/5/2009-ईए--राष्ट्रपति, श्री एस. के. मुखर्जी, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के

एक अधिकारी को वेतनमान पीबी-4 (रु. 37,400—67,000) + ग्रेड पे रु. 10,000/- में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में सलाहकार के पद पर 31 जुलाई, 2009 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2009

सं. ए-19012/6/2009-ईए-1--राष्ट्रपति, डा. राजवीर सिंह को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में संविदा के आधार पर 10 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए रु. 18,400—22,400 (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में सदस्य (गैर-सरकारी) के पद पर नियुक्त करती हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2009

सं. 2-1/2008-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री प्रेम चंद, क्षेत्रीय निदेशक को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई में 14,300—18,300/- (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 31.08.2009 (पूर्वाह्न) से प्रोन्नति पर उप महा निदेशक (मात्स्यिकी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "क" राजपत्रित), (अनुसचिवीय) नियुक्त करती हैं। उनकी प्रोन्नति डॉ. एम. ई. जॉन द्वारा माननीय कैट, मुंबई बैंच के समक्ष दायर किए गए ओ.ए. सं. 384/2009 के परिणाम पर निर्भर करेगी।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. 2-1/2005-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री टी. ई. वैकटचमल, निदेशक (इंजीनियरी), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई ब्रेस को अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर 31.08.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

सं. 4-5/2008-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सी. टी. बेटगेरी उपनिदेशक, (सिविल इंजीनियरिंग) को केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलूर में नियमित आधार पर 12,600—375-16,500/- रुपए (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 26.8.2009 से निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क") राजपत्रित (अनुसचिवीय) नियुक्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-10114, दिनांक 17 सितम्बर 2009

सं. ए-32013/021/009-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री सो. बी. वेणुगोपालन, को दिनांक 09.09.2009 (पूर्वाह्न) से रुपये 15,600—39,100/- + ग्रेड

पे रुपये 7,600/- के पे बैंड-3 में ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सी.एस.एस.एस. केंद्र में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 04 सितम्बर 2009

सं. 5-2/2009-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के का. जा. सं. 5/16/2007-सीएस-1 के अनुसार वर्ष 2003 की चयन सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के इन अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती शशि प्रभा मुंजाल
2. श्रीमती शकुंतला जैन
3. श्री नंदन सिंह
4. श्री आर. पांडियन
5. श्रीमती सुरिन्दर कौर
6. श्री आर. एस. पूनिया
7. श्रीमती जतिंदर कौर
8. श्री रॉबिन चटर्जी
9. श्री चन्द्र कान्त रीजोनिया

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुमोदित सेवा तथा अवर सचिव के रूप में दिनांक 01.07.2003 से नोशनल आधार पर वेतन निर्धारण करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति दिनांक 01.07.2003 से प्रभावी मानी जाएगी। तथापि, वास्तविक लाभ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रदान किया जाएगा।

3. उपर्युक्त सभी अधिकारी, अवर सचिव के पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण बकाया राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसके अलावा, उपर्युक्त सभी अधिकारी एफआर-22 के उपबंधों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने के हकदार भी होंगे। तथापि, जो अधिकारी अपनी चयन सूची के वर्ष के 1 जुलाई से पहले तदर्थ अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किए गए थे और विकल्प का लाभ ले चुके हैं, वे यह लाभ दुबारा लेने के हकदार नहीं होंगे।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 सितम्बर 2009

सं. ए-22012/2/2006-स्था.--राष्ट्रपति जी, वर्ष 2007 की चयन ग्रेड चयन सूची में श्री लुकास एल. कामसुआन का नाम शामिल किए जाने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/1/2009-सी.एस.-1(डी) दिनांक 08.09.2009 द्वारा उनकी इस मंत्रालय में तैनाती करने के

परिणामस्वरूप उन्हें वेतन बैंड-4 तथा ग्रेड वेतन 7,600/- रु. के साथ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 11.09.2009 (अप.) से उप सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करती हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12023/1/2007-स्था.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में नियमित वरिष्ठ अन्वेषक तथा वर्तमान में इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्री अरुनाभ भट्टाचार्य की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 04.09.2009 से एक वर्ष अर्थात् दूसरे वर्ष के लिए अथवा इस पद पर नियमित तैनाती होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए सहर्ष बढ़ाती हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. ए-22012/2/2006-स्था.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ए-12036/1/2009-स्था. दिनांक 10.09.2009 के अधिक्रमण में, श्री लुकास एल कामसुआन, उप सचिव को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और 19(1) के अंतर्गत आगामी आदेशों तक श्री बृज मोहन, अवर सचिव के स्थान पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जुलाई 2009

सं. 41/15/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी (रो. नं. 5337; रैंक-42) श्री सोनकाम्बले प्रकाश दिगम्बर को दूरसंचार विभाग, बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में अस्थाई क्षमता में ग्रेड वेतन 5,400/- रु. के साथ वेतन बैंड 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) में, 29.06.2009 (पूर्वाह्न) से अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 11 अगस्त 2009

सं. 41-30/2008-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में कार्यरत श्री टी. के. वरदाकृष्णन को 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- (वेतन बैंड-4) के वेतन बैंड में जिस दिनांक से वे पदभार ग्रहण करते हैं से एक साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

2. इस ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति उक्त अधिकारी को इस ग्रेड में वरिष्ठता का या नियमित प्रोन्नति संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं

करेगी। जब तक अन्यथा आदेश न हो वे उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर अपने मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 18 अगस्त 2009

सं. 41-26/2003-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में निम्नलिखित इंजीनियरों को 6,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) के वेतन बैंड में सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 02.07.2009 तक तदर्थ आधार पर बने रहने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि से	तक
सर्वश्री			
1.	एम. रेवती	02.05.2009	02.07.2009
2.	एम. सी. पांडेय	26.03.2009	02.07.2009
3.	एस. जे. एम. नाथन	29.04.2009	02.07.2009
4.	वी. के. पंत	11.03.2009	02.07.2009
5.	एस. आर. निनावे	30.06.2009	02.07.2009
6.	एम. पी. सिंह	11.06.2009	02.07.2009
7.	राम लगन राम	18.06.2009	02.07.2009
8.	आर. के. निरंजन	22.06.2009	02.07.2009
9.	आर. के. श्रीवास्तव	29.06.2009	02.07.2009

2. यह उल्लेखनीय है कि इस ग्रेड में इस तदर्थ नियुक्ति से उपर्युक्त अधिकारियों को इस ग्रेड में वरिष्ठता और नियमित प्रोन्नति संबंधी मामले में दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि अन्यथा आदेश न किया गया हो, तदर्थ नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर वे अपने मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 सितम्बर 2009

सं. 3(8)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जो ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त निदेशक, श्री ए. के. चावला को इस विभाग में दिनांक 01.09.2009 के पूर्वाह्न से 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड-4 के

संशोधित वेतन ढाँचे में स्वास्थ्य/वैयक्तिक आधार पर निदेशक नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2009

सं. पीएफ/3627/एनआईसी/2009-प्रशासन-I---राष्ट्रपति एतद्वारा श्री वी. सेंथिल कुमार, कर्मचारी कोड सं. 3627 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर से वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी, 1994 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/3186/एनआईसी/2009-प्रशासन-I---राष्ट्रपति एतद्वारा श्री जी. राघवेन्द्र रेड्डी, कर्मचारी कोड सं. 3186 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 08 जुलाई, 1994 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. ई(जी.पी.)2000/1/50---राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेलवे

पर 01.06.2001 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस. एम.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

2001-02 के लिए पैनाल

अधिकारी का नाम

उत्तर रेलवे

श्री हरीश शर्मा

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2005/2/45---श्री अनिल खटवानी, अधीक्षक/विधि/रेलवे बोर्ड को 11.09.2009 के पूर्वाह्न से पदोन्नति आधार पर संशोधन पूर्व वेतनमान 10,000--15,200/- अब 6,600/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड में सहायक विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 18 सितम्बर 2009

सं. ई (ओ) III-2009/आएन/10---रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री डी. सी. मित्रा, उ.प्र.ग्रे/भा.रे. इंजी.से. ने 01.09.2009 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2009

सं. 301/26/2009-एफ(एफ)---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपनियम 48-ए के अंतर्गत, श्री ई. एन. साजिथ, उप-निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली को दिनांक 23.09.2009 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करती हैं।

अमिताभ कुमार, निदेशक (फिल्म)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th August 2009

No. RS/42/5/2009/59-Perl.—Consequent on being relieved from the post of Additional Private Secretary in the personal staff of Minister of Agriculture, Shri Badruddin, Deputy Director (PSS) has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 11th August, 2009.

C. B. RAI, Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th September 2009

No. A-43011/04/2009-Adm.I—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-43011/17/2005-Adm.I dated 31.03.2009 and subsequent Notification of even number dated 12.05.2009, the Competent Authority has approved to extend the term of National Knowledge Commission Cell for another two months w.e.f. 01.08.2009 without any additional financial liability.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 17th September 2009

No. A-43014/4/2007-Admn.II—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale of Indian Economic Service to the Junior Administrative Grade of the service vide Department of Economic Affairs (IES Division) Order No. P-7/2009 (F.No. 13016/3/2009-IES) dated 4th September, 2009, Shri Jasvinder Singh Bains, Senior Research Officer (Grade-III of IES), is relieved of his duties in Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Chandigarh with effect from 18th September, 2009 (A.N.) to join as Deputy Adviser, PEO (Hdqs.), Planning Commission, New Delhi.

S. KESVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 7th September 2009

No. A-43011/06/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following officers who are/were officiating as Under Secretaries on ad-hoc basis in Planning Commission, as Under Secretaries (Grade-I of CSS) on regular basis w.e.f. 01.07.2003:—

S.No.	Name of the Officer	CSL No.	Remarks
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	N. K. Sharma	4281	
2.	Pawan Kumar	4305	Retired Voluntarily w.e.f. 01.09.2006 (FN)
3.	N. K. Raghunathan	4372	
4.	S. Kesava Iyer	4375	

1	2	3	4
	S/Shri		
5.	K. Ramachandran	4489	Retired from Govt. Service w.e.f. 31.05.2008
6.	Smt. Vimla Bajaj	4746	Retired from Govt. Service w.e.f. 30.11.2008
7.	Ms. Shramishtha Bose	4938	
8.	R. C. Gupta	5085	Retired from Govt. Service w.e.f. 30.09.2006
9.	Banarsi Ram	5946	

2. The seniority of the officers included in the Select List annexed to DoPT's aforesaid O.M. will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade-I. The appointment of the abovementioned officers as Under Secretaries on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. The appointment of the officers as Under Secretaries w.e.f. 01.07.2003 would be for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits however would be available only from the date, officers are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

4. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per the provisions of FR 22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List Year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to exercise the option.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 3rd September 2009

No. A-31018/1/2009-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Central Secretariat Service Officers of the Select List year 2003 to Grade-I (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 1.7.2003:—

Sl.No.	Name & Designation
1.	Shri Gulshan Kumar, Under Secretary
2.	Shri Ram Mohan, Under Secretary
3.	Ms. Kiran Vasudeva, Under Secretary
4.	Shri S. Minz, Under Secretary
5.	Shri K. K. Roy, Under Secretary

A. K. SHUKLA, Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 9th July 2009

No. A-32012/5/2008-Admn.I (LA).—The President is pleased to appoint Shri P. S. Gujjar, Superintendent (Legal) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 15th June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/5/2008-Admn.I (LA).—The President is pleased to appoint Shri P. R. Banerjee, Superintendent (Legal) (presently working as Assistant Legal Adviser on ad-hoc basis) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with grade Pay of Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 11th June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/5/2008-Admn.I (LA).—The President is pleased to appoint Shri Birsing Majhi, Superintendent (Legal) (presently working as Assistant Legal Adviser on ad-hoc basis) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with grade Pay of Rs. 6600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 22nd June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 3rd September 2009

No. A-60011/31/2001-Admn.I (LA).—In pursuance of the Central Administrative Tribunal (Madras Bench)'s order dated 27-08-2001 in the O.A. No. 374 and 375 of 2001, and on the basis of the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to antedate the promotion of Shri R. Ragupathi, now Joint Secretary and Legal Adviser, as Additional Legal Adviser (Grade-II of the Legal Adviser Cadre of the Indian Legal Service) w.e.f. 6.6.1997. Pursuant thereto, Shri R. Ragupathi shall be shown above Shri A. P. Agarwal in the panel of the year 1996-97 of Additional Legal Adviser (Grade-II of Indian Legal Service) and this Department's Notification No. 32012/5/96-Admn.I(LA) dated 17th June, 1997, stands modified to that extent.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 9th September 2009

No. A-32012/1/2009-Admn.I (LA).—The President is pleased to appoint Shri A.K. Sharma, Assistant Government Advocate, to officiate as Deputy Government Advocate (Grade-III of Govt. Advocate Service cadre of the Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 3rd September, 2009 until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th September 2009

No. 11025/2/2008-SR.—Consequent upon his repatriation from the office of the Organising Committee, Common Wealth Games Delhi 2010, Shri P.V. Peethambaran has taken over charge of his substantive post of Superintendent, Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, New Delhi w.e.f. 01.09.2009 (Forenoon), until further orders.

PRAVEEN KUMARI SINGH, Dir. (SR)

New Delhi-110001, the 9th September 2009

No. 14016/11/2008-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Gian Singh Meena (Date of Birth : 1.7.1957), Inspector (D-I/846) of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay of Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with effect from 27th March, 2009, the date on which his juniors were promoted.

2. The appointment of Shri Gian Singh Meena, Inspector of Delhi Police into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

J. K. SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 7th September 2009

No. 13017/24/2004-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Govt. has approved/directed that Shri M. G. V. K. Bhanu, IAS (AM:85) presently on inter cadre deputation to the state of Andhra Pradesh, shall stand repatriated to his parent cadre i.e. Assam-Meghalaya by the end of September, 2009.

R. K. GUPTA, Under Secy.

The 8th September 2009

No. 13017/27/2009-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Haryana and the Ministry of Home Affairs as the Cadre Controlling Authority for the AGMUT cadre, the Central Govt. hereby accords approval for Inter Cadre deputation of Shri Brijendra Singh, IAS (HY:98) from IAS Cadre of Haryana to the IAS Cadre of AGMUT for a period of three years with effect from the date of his joining the AGMUT Cadre.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 15th September 2009

No. 14012/28/2005-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service the following members of the Indian Administrative Service borne on the Joint Cadre of Assam-Meghalaya, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Diwakar Nath Mishra	2000	04.09.2002
2.	Shri Jujjavarapu Balaji	2001	02.09.2003
3.	Shri M. Angamuthu	2002	02.09.2004

SHAUKAT ALI, Under Secy.

The 17th September 2009

No. 23012/04/2008-AIS-III—Shri Parag Jain, IAS (MH:96), appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 1995 and borne on the cadre of Maharashtra, has been permitted to change his name from "Parag Jain" to "Paraag Jain Nainuttia". He will accordingly be recognised as Shri Paraag Jain Nainuttia for all official purposes.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 1st September 2009

No. A-19014/05/2007-AR(Ad.I)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Shyama Kutty to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2003.

V. K. VERMA, Under Secy.

No. A-19014/1/2005-AR (Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri Anurag Srivastava to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2003.

V. K. VERMA, Under Secy.

No. A-19011/01/2005-AR(Ad.I)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Shailja N. Joshi to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2003.

V. K. VERMA, Under Secy.

The 9th September 2009

No. A-19014/02/2003-AR(Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri P. S. Chauhan to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2003.

V. K. VERMA, Under Secy.

The 11th September 2009

No. A-19014/01/2008-AR(Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 for Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri Juglal Singh to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2003.

V. K. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 13th August 2009

No. 70 (F. No. A-19012/13/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Nitish Kumar Sinha, IRS (C&CE) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 11.08.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 71 (F. No. A-19013/17/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Sinha, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 24.07.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 17th August 2009

No. 72 (F. No. A-19013/21/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Manisha Saxena, (IRS : C&CE) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 04.08.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 73 (F. No. A-19013/20/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Vikas, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 03.08.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 74 (F. No. A-19013/22/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Mohan Lal, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 04.08.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 75 (F. No. A-19013/15/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Navraj Goyal, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 31.07.2009 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 19th August 2009

No. 76 (F. No. A-19013/14/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Ved Prakash Singh, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 20.07.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 20th August 2009

No. 77 (F. No. A-19013/16/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Verma, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise and Customs of Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 24.07.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 21st August 2009

No. 78 (F. No. A-19013/23/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri N. G. Shahdarpuri, (IRS : C&CE) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 13.08.2009 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 31st August 2009

No. 79 (F. No. A-19013/7/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Ms. Poornima Sharma, an officer of the Central Secretariat Official Language Service, as Deputy Director (Official Language) on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 13.05.2009 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 21st August 2009

No. 8 of 2009 (F. No. A-32014/02/2008-Ad. IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training OM No. 5/8/2009-CS. II dated 22.7.2009 and Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s O. M. No. A-32014/2/2009-CAS dated 19th August, 2009, the President is pleased to appoint Shri C. G. K. Pillai, a regular Principal Private Secretary of CSSS as Senior Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Finance, Department of Revenue in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 13.8.2009 (A.N.) against the Select List Year 2009.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

No. 9 of 2009 (F. No. A-32014/02/2008-Ad. IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2009-CS. II dated 22.7.2009 and Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s O. M. No. A-32014/2/2009-CAS dated 19th August, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Shobha Bhatia, a regular Principal Private Secretary of CSSS as Senior Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Finance, Department of Revenue

in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. 11.8.2009 (F.N.) against the Select List Year 2009.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 31st August 2009

No. 11/2009-E.S. (File No. 6/15/2007-E.S.)—The President is pleased to appoint Shri Prasanna Kumar Misra as Member (from the field of Finance or Accountancy) and Chairperson, Adjudicating Authority, set up under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002, with a salary of Rs. 79,000/-, fixed at the maximum of the Pay Scale of [HAG – Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%) – 79,000/-], and such allowances as are admissible to Group 'A' Officer of the equivalent grade, with effect from the forenoon of 17th August, 2009 for a period of five years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

New Delhi, the 9th September 2009

No. 10 (F. No. 4/14/2008-Ad. ED).—The President is pleased to appoint Shri Rajendra, IRS (IT : 1982) as Special Director of Enforcement at Mumbai on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 18,400—22,400/- (Pre-revised) for a period of 5 (five) years with effect from 24.8.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 16th September 2009

No. A-19011/251/2005-Estt.—The President is pleased to grant Non-Functional Selection Grade in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay : Rs. 8,700/- to Shri Lalit Kumar Chandel, Junior Administrative Grade of IES, presently posted as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance, with effect from 5th June, 2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 11th September 2009

No. A-19014/02/2009-Admn. I.—The President is pleased to appoint Ms. Alka Arora, IDAS (91) as Additional Development Commissioner (Handicrafts) (Director Level) in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, New Delhi with effect from the afternoon of 13.08.2009 and upto 17.05.2013 or until further orders, whichever is earlier.

P. MALLIKARJUNAIAH, Dy. Director (Admn. I)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 11th September 2009

No. SM/01/17/2008—The President is pleased to promote the following officers holding the post of Directors in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- in Survey of India to the post of Additional Surveyor General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 10,000/- in the Senior Administrative Grade against Regular post in that Department with effect from the date as indicated against each until further orders :—

Name of the Officer	Date of Appointment
Shri M. Dharma Raj	01.09.2009

B. K. MANTHAN, Desk Officer

No. SM/01/17/2008—The President is pleased to promote the following officers holding the post of Directors in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- in Survey of India to the post of Additional Surveyor General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 10,000/- in the Senior Administrative Grade against Supernumerary post in that Department with effect from the date as indicated against each until further orders :—

S. No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1.	Brig S. Chaudhuri	01.09.2009
2.	Brig R. C. Padhi	01.09.2009
3.	Brig Girish Kumar	08.09.2009
4.	Brig R. P. Sian	01.09.2009
5.	Brig A. K. Sinha	01.09.2009
6.	Brig M. Mohan	01.09.2009
7.	Brig C. Chatterjee	01.09.2009
8.	Brig Anil Kumar	01.09.2009
9.	Brig R. N. Thakur	01.09.2009
10.	Brig B. D. Sharma	01.09.2009

B. K. MANTHAN, Desk Officer

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-110016, the 14th September 2009

No. A-19014/02/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Taneja, a regular Section Officer (CSL No. 4772) presently officiating as Under Secretary on ad-hoc basis, to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary Grade) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. In terms of DoPT O. M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, Shri A. K. Taneja stands placed in the Select List 2003 of Under Secretary Grade and his said appointment shall be deemed to have been made with effect from 1st July, 2003.

S. K. KALRA, Under Secy.

No. A-19014/01/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Srinibas Pradhan, a regular Section Officer (CSL No. 5092) presently officiating as Under Secretary on ad-hoc basis, to the Grade I of Central Secretariat Service (Under Secretary Grade) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. In terms of DoPT O. M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, Shri Srinibas Pradhan stands placed in the Select List 2003 of Under Secretary Grade and his said appointment shall be deemed to have been made with effect from 1st July, 2003.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 15th September 2009

No. A-23011/1/2004-P.II (.).—Consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2003 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Services vide DoPT OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following officers to the post of Under Secretary (Grade I of CSS) on regular basis with effect from 01.07.2003 :—

S. No.	Name of the Officers	CSL No.
1.	Shri Udyan Chatterjee	CSL No. 4231
2.	Shri Dinesh C. Sharma	CSL No. 4240
3.	Shri P. K. Agarwal	CSL No. 4293
4.	Shri Zafrul Islam	CSL No. 4388
5.	Shri V. K. Srivastava	CSL No. 4548
6.	Shri C. M. Sharma	CSL No. 4729
7.	Shri B. B. Babbar	CSL No. 4802
8.	Shri Raj Kumar Arora	CSL No. 4913
9.	Shri D. P. Singh	CSL No. 4953
10.	Shri C. Uppli	CSL No. 5028
11.	Shri O. P. Joshi	CSL No. 5098
12.	Shri Mohan Lal Wadhwani	CSL No. 5138

2. The vacancies against which above mentioned officers have been included in the Select List relates to period from 1st July, 2003 (the Select List year) to 30th June, 2004 (the following year). The regular Select List could not be drawn

within the prescribed period for such panel due to protracted litigation and these panels have gone in arrears. Therefore, the appointment of the officers included in the aforesaid Select List may be deemed to have been made effective with effect from 1.7.2003, for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits however would be available only from the date, officers are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS ordered centrally by the Department of Personnel and Training.

3. These officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per the provisions of FR 22.

4. The order of seniority of the above mentioned officers in Grade-I of the CSS will follow the serial given in the Select List enclosed to the DoPT OM. No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009. The appointment of officers included in the aforesaid Select List of the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in High Court of Delhi.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th September 2009

No. A-12025/32/2007-CHS. III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Harsha Shailesh Gaikwad to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service on probation, with effect from the forenoon of the 15.05.2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/23/2008-CHS. III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil Vilasrao Gitte to the post of Public Health Specialist Grade II in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of the 30th January, 2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/6/2009-CHS. III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pranab Jyoti Bhuyan to the post of Public Health Specialist Grade II in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of the 16th July, 2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 19th August 2009

No. A-19012/5/2009-EA.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Mukherjee, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + Grade Pay Rs. 10,000/-, with effect from the afternoon of 31st July, 2009.

D. K. ROY, Under Secy.

The 10th September 2009

No. A-19012/6/2009-EA.—The President is pleased to appoint Dr. Raj Vir Singh to the post of Member (Non-Official) in the Commission for Agricultural Costs & Prices, an attached office of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- (pre-revised) w.e.f. 10th July 2009 (FN) for a period of three years on contract basis.

D. K. ROY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES

New Delhi, the 7th September 2009

No. 2-1/2009-Fy. Admn.—The President is pleased to promote Shri Prem Chand, Zonal Director to the post of Deputy Director General (Fy) (General Central Service Group 'A' Gazetted), (Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/- (Pre-revised) with effect from 31.08.2009 (F.N.). His promotion would be subject to outcome of O.A. No. 384/2009 filed by Dr. M. E. John before the Hon'ble CAT, Mumbai Bench.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

The 16th September 2009

No. 2-1/2005-Fy. Admn.—The President is pleased to allow Shri T. E. Venkatachalam, Director (Engg.) of Fishery Survey of India, Mumbai Base to retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.08.2009 A.N.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

No. 4-5/2008-Fy. Admn.—The President is pleased to promote Shri C. T. Betgeri, Deputy Director (Civil Engineering) to the post of Director (General Central Service Group 'A') Gazetted, (Non-Ministerial) in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore on regular basis

in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- (Pre-revised) with effect from 26.08.2009.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 17th September 2009

No. A-32013/021/2009-Estt. II.—The President is pleased to appoint Shri C. V. Venugopalan as Senior Principal Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis in the combined CSSS cadre of the Ministry of Rural Development and the Ministry of Panchayati Raj with effect from the forenoon of 9th September, 2009.

S. S. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th September 2009

No. 5-2/2009-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2003 vide DoPT's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development :—

1. Smt. Shashi Prabha Munjal
2. Smt. Shakuntla Jain
3. Shri Nandan Singh
4. Shri R. Pradiyan
5. Smt. Surinder Kaur
6. Shri R. S. Punia
7. Smt. Jatinder Kaur
8. Shri Robin Chatterjee
9. Shri Chandra Kant Reejonia

2. The appointment may be deemed to have been made with effect from 01.07.2003, for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis with effect from 01.07.2003. The actual benefits, however, would be available only from the date, officers are appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

3. The above officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per the provisions of FR 22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July, of their Select List Year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

The 11th August 2009

New Delhi-3, the 14th September 2009

No. A-22012/2/2006-Estt.—Consequent upon inclusion in the Selection Grade Select List of CSS for the year 2007 and on his being posted to this Ministry by DOP&T vide Order No. 4/1/2009-CS.I (D) dated 8.9.2009, the President is pleased to appoint Sh. Lucas L. Kamsuan as Deputy Secretary in the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 11.09.2009 (AN) in Pay Band 4 with Grade Pay of Rs. 7,600/-.

K. M. SINGH, Under Secy.

No. A-12023/1/2007-Estt.—The President is pleased to extend the term of deputation of Sh. Arunabha Bhattacharyya, a regular Senior Investigator in the National Commission for Scheduled Castes and presently working as Assistant Director on deputation basis in this Ministry for one more year i.e. for the second year w.e.f. 04.09.2009 or till regular incumbent to the post joins or till further orders whichever is the earliest.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 16th September 2009

No. A-22012/2/2006-Estt.—In supersession of this Ministry's Notification No. A-12036/1/2009-Estt. dated 10.9.2009, Sh. Lucas L. Kamsuan, Deputy Secretary is designated as Central Public Information Officer in place of Sh. Brij Mohan, Under Secretary until further orders, in terms of Section 5 (1) and 19 (1) of the RTI Act, 2005.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 8th June 2009

No. 41/15/2006-Admn. IV.—The President is pleased to appoint the following qualified candidate of Engineering Service Examination, 2007 to the post of Engineer in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the temporary capacity, in Wireless Planning & Co-ordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications with effect from the date indicated against his name, till further order:—

Name	Roll No.	Rank	Date of appointment
Sh. Neeraj Juyal	45411	16	24.04.2009 (FN)

NIRMALA DEV, Under Secy.

No. 41-30/2008-Admn. IV.—The President is pleased to appoint Shri T. K. Varadakrishnan, as Joint Wireless Adviser/Director working in Wireless Planning & Coordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications in the Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) on ad-hoc basis w.e.f the date he assumes charge of the post for a period of one year.

2. Ad-hoc appointment to the grade will not confer upon him any right for claim in the matter of seniority and/or regular promotion in the grade. He will stand reverted to his substantive grade on completion of the period of ad-hoc appointment mentioned above unless otherwise ordered.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 18th August 2009

No. 41-26/2003-Admn. IV.—The President is pleased to allow the following Engineers in Wireless Planning & Coordination Wing/Wireless Monitoring Organisation Department of Telecommunications to continue to officiate in the grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-charge in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis upto 02.07.2009 :—

S. No.	Name of the Officers	Period of Ad-hoc From	Appointment To
	S/Shri		
1.	M. Revathi	02.05.2009	02.07.2009
2.	M. C. Pandey	26.03.2009	02.07.2009
3.	S. J. M. Nathan	29.04.2009	02.07.2009
4.	V. K. Pant	11.03.2009	02.07.2009
5.	S. R. Ninave	30.06.2009	02.07.2009
6.	M. P. Singh	11.06.2009	02.07.2009
7.	Ram Lagan Ram	18.06.2009	02.07.2009
8.	R. K. Niranjana	22.06.2009	02.07.2009
9.	R. K. Srivastava	29.06.2009	02.07.2009

2. It may be noted that the ad-hoc appointment to the grade will not confer upon the above officers any right for claim in the matter of seniority and/or regular promotion in the grade. They shall stand reverted to their substantive grade on completion of the period of ad-hoc appointment mentioned above unless ordered otherwise.

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 14th September 2009

No. 3(8)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Chawla, Joint Director, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information

Technology as Director on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 01.09.2009 (forenoon).

GIRISH SAHAI, Jt. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 15th September 2009

No. PF/3627/NIC/2009/Adm. I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri V. Senthil Kumar, Emp. Code-3627, from the post of Scientist "B", NIC Gujarat State Unit, Gandhinagar with effect from the afternoon of 28.02.1994 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

No. PF/3186/NIC/2009/Adm. I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri G. Raghvendra Reddy, Emp. Code-3186, from the post of Scientist "B", NIC Hqrs., New Delhi with effect from the afternoon of 8th July, 1994 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 16th September 2009

No. E(GP)2000/1/50—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Mechanical Engg. Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME)

with effect from 01.06.2001, on the Railway mentioned below.

PANEL FOR 2001-02

Name of the Officer

Northern Railway

Shri Harish Sharma

K. B. L. MITTAL, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2005/2/45—Shri Anil Khatwani, Supdt./Legal/Railway Board, has been appointed as Assistant Legal Adviser, Railway Board in the Pre-revised Scale of Rs. 10,000—15,200/- now in Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Rs. 6,600/- Grade Pay on promotion basis with effect from the forenoon of 11.09.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
(Railway Board)

The 18th September 2009

No. E(O)III-2009/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited, Shri D. C. Mitra, HAG/TRSE, has resigned from Railway Service with effect from 01.09.2009 (FN).

K. B. L. MITTAL, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th September 2009

No. 301/26/2009-F(F)—The President is pleased to permit Shri E. N. Sajith, Deputy Director, Directorate of Film Festivals, New Delhi to voluntarily retire from Government Service Under Rule 48-A of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 23.9.2009.

AMITABH KUMAR, Director (Films)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009